

काश्यप , श्री चेतन्य कुमार

भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र- रतलाम सिटी (220)



पिता का नाम-	स्व. श्री अशोक कुमार काश्यप
जन्म तिथि-	16 जनवरी, 1959
जन्म स्थान-	इंदौर
वैवाहिक स्थिति-	विवाहित
पत्नी-	श्रीमती नीताकुमारी काश्यप
संतान-	2 पुत्र
शैक्षणिक योग्यता-	बी.कॉम (सेकेण्ड ईयर)
व्यवसाय-	उद्योग
अभिरुचि-	लेखन व पत्रकारिता
स्थायी पता-	वीसाजी मेन्शन, महात्मा गांधी मार्ग, रतलाम (म.प्र.) दूरभाष-(07412) 236016 मोबाइल-09818840123 फैक्स-(07412) 231830 ई-मेल- chetanya.kashyap@mpvidhansabha.nic.in
स्थानीय पता-	ई-9 एच/2, चार इमली, भोपाल (म.प्र.)

सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त विकास क्रम-

सन् 2005 से वर्तमान तक भा.ज.पा. की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य. सन् 2006 में श्री लालकृष्ण आडवाणी की भारत सुरक्षा यात्रा के मीडिया प्रभारी एवं लोक सभा तथा विधान सभा क्षेत्र प्रदेश परिसीमन प्रभारी. सन् 2007 एवं 2008 में क्रमशः उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव के मीडिया व प्रवास प्रभारी. सन् 2008-2010 में भा.ज.पा. के रचनात्मक कार्य एवं स्वयं सेवी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक. सन् 2010 से वर्तमान तक मध्यप्रदेश भा.ज.पा. के कोषाध्यक्ष. वर्ष 2010 में इंदौर में सम्पन्न भा.ज.पा. के राष्ट्रीय अधिवेशन में अन्त्योदय प्रदर्शनी के संयोजक. सन् 2010-2012 में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य. सन् 2012 में कानपुर महानगर विधान सभा चुनाव के प्रभारी. गरीबी से मुक्ति-विकास की युक्ति हेतु अहिंसा ग्राम (100 अभाव ग्रस्त गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास, आजीविका, रोजगार प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य का समन्वित आदर्श प्रकल्प) तथा खेल चेतना मेला (स्कूली स्तर पर खेल भावना जागृत करने हेतु मंदसौर, नीमच एवं रतलाम जिले में प्रतिवर्ष 15 स्थानों पर अंतर्विद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, पचास हजार बच्चों की सहभागिता) के संस्थापक. जीवन विज्ञान के सम्प्रभारी, शिव गंगा अभियान के प्रमुख सहयोगी, क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय नियामक मण्डल के सदस्य, वर्ल्ड जैन कान्फेडरेशन के महासचिव, अखिल भारतीय त्रिस्तुतिक जैन श्रीसंघ, जयंतसेन म्यूजियम, श्री स्वर्ण गिरि तीर्थ के सलाहकार, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, संरक्षक एवं पूर्व अध्यक्ष. डॉ. के.एन.काटजू विधि महाविद्यालय रतलाम एवं वर्ष 2004-2009 में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई आई एम) इंदौर के ट्रस्टी सदस्य. भारतीय भाषायी समाचार पत्र संगठन (इलना) के पूर्व महासचिव, चेतना मीडिया-चेतना हिन्दी दैनिक के चेयरमैन एवं वर्ष 2009-2010 में इण्डियन न्यूज पेपर सोसायटी (आई एन एस) की कार्यकारिणी के सदस्य. बेस्ट इंडस्ट्रियल मैनेजर के रूप में सम्मानित एवं जैन रत्न की उपाधि से विभूषित.

सन् 2013 में पहली बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित.